

स्वस्थ भारत बनाने के संकल्प के साथ सम्पन्न हुआ अभियान



मुख्य 'मेरा भारत, स्वस्थ भारत' अभियान के समापन समारोह में डॉ.कु.योगिनी, डॉ.अशोक मेहता, डॉ.कु.रमेश शाह, डॉ.कु.मीरा, डॉ.बनारसी लाल शाह, डॉ.प्रताप मिश्रा समस्त अभियान दल के सदस्यों के साथ समूह चित्र में।

मुख्य बीस हजार किलोमीटर की

यात्रा कर मुख्य पहुंची पांच यात्राओं के सदस्यों के बेहों पर धक्कान महीं वर्तन् नयी उर्जा व नये उमंग का उत्साह दिखलाई दे रहा था। भारत के हर वासी को सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने की वह अद्भुत लालसा उनमें शक्ति का संचार कर रही थी। अभियान के सदस्यों में निःस्वार्थ भाव से की गई सेवाओं से मिला दुआओं का बल सभी को अभिभूत कर रहा था। भारत में किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाये गये स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में ब्रह्माकुमारी संस्था के मेडिकल विंग द्वारा चलाया गया 'मेरा भारत स्वस्थ भारत' अभियान अब तक का सर्वाधिक लम्ही दूरी तय करने वाला पहला अभियान है। यह अभियान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इसका समापन समारोह विलेपाले पश्चिम स्थित भाईदास हॉल में आयोजित किया गया।

ब्रह्माकुमारीज राजयोगा एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन के मेडिकल विंग के अध्यक्ष डॉ.अशोक मेहता तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ.बनारसी लाल शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य जागरूकता अभियान त्रिवेन्द्रम, देहरादून, भुवनेश्वर, गुवाहाटी तथा लखनऊ से शुरू होकर बीस हजार कि.मी. की कुल दूरी तय करते हुए मुख्य में सम्पन्न हुआ। इस अभियान में दस लाख से अधिक लोगों



सदस्यता शुल्क

भारत - वार्षिक 140 रुपये,
तीन वर्ष 410 रुपये
आजीवन 1800 रुपये

ट्रिडेश - 1500 रुपये (वार्षिक)
कपया सदस्यता शुल्क 'ओम शान्ति मीडिया'
के नाम मीडिया आईडी वा बैंक ड्राफ्ट
(पेंडल एट माउट आबू) द्वारा भेजें।

पत्र-व्यवहार

संयुक्त संपादक : डॉ.कु.गंगाधर
ओम शान्ति मीडिया
ब्रह्माकुमारीज, ज्ञानसरोवर, पो.वा.न.-66
माउण्ड आबू (राज.)-307501, फोन - 02974
235036, EPABX-238788, फैक्स-02974
-238951, (M)- 9414154344 ,
E-mail : omshantimediacom@bkviv.org

प्रति



(मेरा भारत, स्वस्थ भारत अभियान 2009 विशेषांक)

वर्ष - 10 अंक - 17


दिसम्बर-I, 2009



(पाक्षिक) माउण्ट आबू मूल्य 6.00 रु.

ओम शान्ति मीडिया

'मेरा भारत स्वस्थ भारत' अभियान से जगी नये सूर्योदय की आस



शुभ
श्रद्धालू

हमें यह
समाचार
सुनकर
अति
प्रसन्नता हो

दादी जानकी
मुख्य प्रशासिका, ब्रह्माकुमारीज
रही है कि इस वर्ष हमारे मेडिकल विंग के डबल डाक्टर्स ने बहुत ही दिल व जान से अधिक बन पूरे भारत वर्ष में 'मेरा भारत स्वस्थ भारत' अभियान के अन्तर्गत अति प्रशंसनीय सेवायें की हैं। यह अभियान त्रिवेन्द्रम, देहरादून, भुवनेश्वर, गुवाहाटी तथा लखनऊ आदि राजधानीयों से प्रारम्भ हुए और अपने मार्ग में आने वाले हर शहर, गांव वा कस्बे तक पहुंचकर जन-जन में एक नई जागृति लाने के निमित्त बने। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य था कि हर मानव को तन और मन के स्वास्थ्य से सब्जित जानकारी दी जाए, उन्हें पौर्णिक आहार की शिक्षा, व्यसनमुक्त एवं तनावमुक्त जीवन जीने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

ऐसे महान उद्देश्य को लेकर जिन डॉक्टर्स भाई-बहिनों ने निःस्वार्थ भाव से अपनी सेवायें प्रदान की हैं, वे सचाउच प्रशंसना के पात्र हैं। मैं सहदय से अपने अधिक सेवाधारी भाई-बहिनों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम जीवन से कुछ समय समाज की इस सच्ची महान सेवा के लिए निकाला और हजारों भाई-बहिनों की दुआओं के पात्र बने।

मैं राजयोग एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन के मेडिकल विंग के सभी सदस्यों को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने इस विशाल, श्रेष्ठ तथा वृद्ध सेवा के लिए इस अभियान की योजना बनाई तथा अपने तन-मन-धन और समय का सहयोग देकर इसे सफल बनाया। इसके साथ-साथ उन सभी अभियान यात्रियों को तथा हर सेवा कार्य में सहयोगी भाई-बहिनों का भी मैं कोटि-कोटि अभिनंदन करती हूँ जिनकी अधिक मेहनत एवं प्रयास से इस अभियान ने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया। आशा है ऐसी सेवायें आगे भी देते हुए सर्व की दुआओं के पात्र बनते रहेंगी।

लखनऊ | वर्तमान समय मानव के शारीरिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य का तीव्रता से हास हो रहा है इन परिस्थितियों को देखकर ही ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा चलाया जा रहा 'मेरा भारत स्वस्थ भारत' अभियान निश्चय ही देश की तस्वीर बदलने में सहायक होगा।

उक्त विचार व्यक्त किए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एन.शुक्ला, जी.बी.पंत अध्यक्ष के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ.मोहित गुप्ता, डॉ.अशोक मेहता, डॉ.बनारसी लाल शाह तथा अन्य दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

था ब्रह्माकुमारीज मेडिकल विंग द्वारा चलाए जा रहे 'मेरा भारत, स्वस्थ भारत' अभियान वे अंतर्गत 'लखनऊ से मुख्य' तक की यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम का। ब्रह्माकुमारीज मेडिकल विंग के अध्यक्ष डॉ.अशोक मेहता, सचिव डॉ.बनारसी लाल, हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉ.मोहित गुप्ता तथा ब्रह्माकुमारीज मेडिकल विंग के अध्यक्ष डॉ.बनारसी लाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी तथा लखनऊ आदि राजधानीयों से प्रारम्भ हुए और अपने मार्ग में आने वाले हर शहर, गांव वा कस्बे तक पहुंचकर जन-जन में एक नई जागृति लाने के निमित्त बने। मंचासीन हैं डॉ.अशोक मेहता, डॉ.बनारसी तथा अन्य।

स्वास्थ्य के प्रति संचेत करने का जो अभियान शुरू किया गया है इससे नये सूर्योदय की उम्मीद जगी है। डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

डॉ.अशोक मेहता ने कहा कि लोगों को भले ही संशय करने की कला एवं राजयोग के अभ्यास की विधायां सिखाई जाए जिससे वे सम्पूर्ण स्वस्थ, निरोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

मैं कौन हूँ? यह जानें



सम्पादकीय

प्रश्न- जिंदगी में हम कई सुकाम तय करते हैं। हम कितने ही पार्ट अदा करते हैं, कितने ही रोल निभाते हैं, कभी मैं एक माँ होती हूँ, कभी मैं एक प्रोफेशनल हूँ, कभी मैं एक पत्नी हूँ या फिर कभी-कभी मैं कुछ और हो जाती हूँ, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा कि वास्तव में मैं हूँ कौन? कई बार ये सवाल उठता है और तब इसका जवाब तलाशना जरूरी हो जाता है। कई रोल हम अदा करते हैं और उसको बखुबी निभाते भी हैं और बड़ी जल्दी हम चेंज भी हो जाते हैं। जब मैं एक माँ हूँ तो बहुत साप्तर बनी रहूँगी, जब मैं टीचर हूँ तो बहुत स्ट्रॉग हो जाऊँगी, जब बाहर निकलूँगी तो कुछ और हो जाऊँगी, लेकिन एक बहत आता है कि मन पूछता है मैं हूँ कौन?

ब्र.कु.शिवानी- कई बार ऐसा होता है कि मन पूछता है कि सारे रोल करते हुए, सारे रोल निभाते हुए, कहीं न कहीं मैं कौन हूँ....। जैसा आपने कहा कि हम कलाकार हैं जो विभिन्न रोल निभा रहे हैं। रोल प्ले करने के बाद भी कलाकार को मालूम होता है कि मैं फलाना हूँ इसने ये रोल प्ले किया। लेकिन हम आजकल रोल प्ले करते-करते उस रोल के अंदर इतना उलझ, फंस जाते हैं कि रोल को ही मैं समझना शुरू कर देते हैं। आप जो भी रोल इस समय प्ले कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा एंकर। एक टाईम में हम एक या दो या तीन रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा रोल बेरीगेशन कहीं न कहीं हमारी आंतरिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। लेकिन हम बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। जैसे-



रुशनुमा
जीवन जीने
की छला

-ब्र.कु.शिवानी

जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जायेगी, हमारे रोल बढ़ते जाएंगे। आप पहले सिर्फ एक बेटी थीं, एक बहन थीं, पिर आप एक पत्नी बनीं, फिर आप एक माँ बनीं, फिर आप किसी की चाची बनीं, किसी की बुआ बनीं, अब आप किसी की नानी बनींगी, किसी की दादी बनींगी, रोल तो बढ़ते ही जायेंगे। इतने सारे रोल प्ले करते-करते हम यह भूल जाते हैं कि ये रोल प्ले करने वाला मैं कौन हूँ? यह सबकुछ करते हुए हमें यह जानना चाहिए कि ये कौन हैं जो ये रोल प्ले कर रहा है? इसके लिए हमें जाग्रत रहना बहुत जरूरी है। इस शरीर द्वारा पार्ट अदा करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। एक ज्योति है जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए है।

प्रश्न- मैं कौन हूँ, ये हमें जानना क्यों जरूरी है? जब मैं इतने सारे रोल अदा कर रही हूँ और बखुबी निभा ही हूँ और इसे इच्छायी भी कर रही हूँ तो क्यों जानना जरूरी है।

ब्र.कु.शिवानी- क्या हम सचमुच में उसको ए-जॉय कर रहे हैं, क्या हम सचमुच में उसको बखुबी निभा रहे हैं? यदि हम सचमुच में उसको बखुबी निभा रहे होते, ए-जॉय कर रहे होते तो हमें टेंशन नहीं आना चाहिए था। आप जानते हैं कि हम कहीं न कहीं उनमें फँसते जा रहे हैं और कहीं न कहीं अपने आपको भूलते जा रहे हैं। ये जाना महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूँ क्योंकि अगर एक्टर को ये नहीं पता होगा कि मेरी शक्ति क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी आंतरिक विशेषताएं या गुण क्या है, तो वह रोल सही रीत नहीं निभा सकता। अपनी विशेषताएं को भी पहचानना है, कहीं न कहीं एकाध कमज़ोरी है उसको भी पहचानकर दूर करना है, आगर मैं सबकुछ जानते हुए रोल प्ले करना है।

इस यात्रा का खास मकसद लोगों को यही बताना था कि हम जब परमात्मा की याद से बिछड़ते हैं और अपने को शरीर मानकर ऐन्ड्रिक सुखभोग करने लगते हैं तो मन और शरीर दोनों ही विकारप्रस्त होकर रुग्ण हो जाते हैं। इसलिए सम्पूर्ण स्वास्थ्य का मतलब है शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का उपाय जो योग से ही सम्भव है। इसी यात्रा में यह भी बताया गया कि व्यसन किस तरह से शरीर और मन दोनों को खारब करते हैं और इनसे जीवन का सारा सुख दुःख में बदल जाता है। एक तरह से यह तन, मन के साथ ही संसार से सुखपूर्वक जुड़े रहने का विज्ञान बताने की यात्रा भी जो अपने मकसद में कामयाब रही।

दिसम्बर-I, 2009

ओम शान्ति मीडिया

जीवन को सुखमय बनाने की यात्रा

जिसके अंदर जितनी पवित्र भावनाएं प्रवाहित होती हैं उतना ही आत्मा का तेज बढ़ता जाता है, आभा बढ़ने लगती है। जहां अहंकार है, अशुद्ध भावनाएं हैं उन सम्बन्धों में कभी भी निःव्याप्ति प्रेम पनप नहीं सकता है आज हरेक को जीवन में क्या चाहिए - प्रेम चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए तो बड़े बुजुर्गों के साथ भी यदि प्यार से व्यवहार करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि बुजुर्ग ने तो सारा जीवन बहुत प्यार पाया है इसलिए बुजुर्गों में प्यार नहीं मिला तो चलेगा - नहीं। हर इंसान को प्यार चाहिए और वो भी निःस्वार्थ प्यार चाहिए और ये निःस्वार्थ प्यार तभी पनप सकता है जब आपस में सही सामर्ज्य हो जाए। पहले तो मनोचिकित्सक की कोई भूमिका महसूस ही नहीं की जाती थी।

अब एक परिवर्तन हो रहा है। अब यह मानने लगे हैं चिकित्सक भी कि मन की विषमताओं का प्रभाव भी शरीर की विषमताओं पर पड़ता है और यह प्रभाव उन विषमताओं के साथ ही नई विकृतियों या विकारों को जन्म देता है। अब चिकित्सक भी मानो-शारीरिक रचना और प्रभाव को स्वीकार करने लगे हैं। हाँ, यह जरूर है कि यह सब सीमित मात्रा में है। मनोशारीरिक प्रभाव को पहले केवल मनोविद् ही मानते रहे हैं। चिकित्सकों को इसे समझने और स्वीकार करने में कुछ समय लगता है। पर वे अब भी शरीर पर ही केन्द्रित हैं। वे मन को विकारों का कारक और कारण मानने से बचते हैं। इसलिए भी कि मन की विकारों का प्रभाव से आगे क्या चाहिए। आज मानव जीवन में आनंद व खुशी नहीं है। आत्मा के निज गुण ही उसकी शक्ति हैं। इन गुणों के न होने से आत्मा कमज़ोर हो गई है। आत्मा में ज्ञान की शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति की शक्ति है। दूसरे शब्दों में कहें तो यही आत्मा का स्वर्थम् है। हर चीज का अपना गुणधर्म होता है जैसे पानी का

रीता ज्ञान वा आध्यात्मिक दृष्टि

वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, ब्र.कु.उषा

गुणधर्म है - शीतलता, अग्नि का गुणधर्म है - गर्मि। पानी को कितना भी उबालो, लेकिन उसके बाद पुनः वह अपने शीतल स्वरूप में वापस आ जाता है। भावर्य यह है कि जैसे ही जीवन का विकार कर रहे हैं क्योंकि वह सब अब उनके सामने उपस्थित किया जाने लगा है। यह सब कुछ मनोशारीरिक प्रभाव से आगे की जानकारियां हैं। ये जानकारियां कुछ अर्थों में तो मनोचिकित्सकों से भी आगे की स्थितियां सामने ला रही हैं। हृदयरोग, मधुमेह, रक्तचाप, तनाव आदि से सम्बन्धित विकारों के सम्बन्ध में ही नहीं, अन्य रोगों के सम्बन्ध में भी यह सब सच सामने आ रहा है कि विकारों का प्रभाव रोग की स्थिति और उसकी प्रतिरोध क्षमता पर पड़ता है। इसमें भी सुभ तथा अशुभ प्रियांशु विचार उसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। यह भी स्वीकार किया जाने लगा है कि विकारों की सुभता या अशुभता आत्मा की स्थिति पर निर्भर है।

संस्था के मेडिकल प्रभाव ने इस दृष्टि और विचार को भारत के ज्यादातर लोगों तक पहुँचाने और उन्हें स्वास्थ्य का सही अर्थ समझाने के लिए इसी वर्ष अगस्त में एक जागरण यात्रा का आयोजन किया था जो अभी अक्टूबर में बोर्नी की बांधी बनींगी, किसी की बुआ बनींगी, अब आप किसी की नानी बोर्नी, किसी की दादी बनींगी, रोल तो बढ़ते ही जायेंगे। इतने सारे रोल प्ले करते-करते हम यह भूल जाते हैं कि ये रोल प्ले करने वाला मैं कौन हूँ? यह सबकुछ करते हुए हमें यह जानना चाहिए कि ये कौन हैं जो ये रोल प्ले कर रहा है? इसके लिए हमें जाग्रत रहना बहुत जरूरी है। इस शरीर द्वारा पार्ट अदा करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। एक ज्योति है जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए है।

प्रश्न-

ओम शान्ति मीडिया



लखनऊ जौहुर्खई...

लखनऊ से आरंभ होकर यात्रा सीतापुर, शाहजहांपुर होते हुए फरुखाबाद पहुँची।

फरुखाबाद। पत्रकार वार्ता में अधियान दल के चिकित्सकोंने तनाव से मुक्ति की युक्तियां बतायी।

अधियान की सम्बन्धित ब्र.कु.मेघा ने बताया कि जीवन में रचनात्मकता लायें और बदलाव को स्वीकार करें। यह सोचें कि कार्य को पूजा कैसे बनायें। हम व्यसन से ग्रस्त लोगों को व्यसनमुक्त बनाकर समाज की सेवा कर सकते हैं।

इटावा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रेमदास कठेरिया सांसद ने कहा कि यह दल निःस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है तथा लोगों में जन-जागृति पैदा कर रहा है। यह अनुकरणीय बात है।

एडीशनल मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.उदयवीर सिंह ने भी कार्यक्रम को सम्मोहित किया। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा राजकीय बलिका इंस्टीट्यूट कॉलेज में अधियान दल के कार्यक्रम दुए। अधियान दल ने जिला कारागार बंदियों व स्टाफ को स्वास्थ्य के प्रति व्यवहारिक जानकारीयां दी।

कानपुर। जैत नितवियर्स के डायरेक्टर बलराम नरूला ने कहा कि फास्ट फूड लोगों को फास्ट डेश की ओर जा रहा है।

स्वास्थ्य रैली का नेतृत्व क

दिसम्बर-I, 2009



देहरादून से मुख्यौँ...

देहरादून से निकलकर यात्रा सहारनपुर होते हुए अम्बाला पहुंची।

अम्बाला। अंबाला छावी व गांवों में कई स्थानों पर संगोष्ठियां आयोजित की गईं। अंबाला छावी के द्याल बाग स्थित आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में बुद्धिजीवी पहुंचे।

सेना, अस्पताल, दोसड़ा कांडस्ट्री, रेलवे हासिप्टल, एस.डी. कालेज आदि में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान डा. वासंती, डा. शिल्पा मेहता ने वर्तमान दौर में तनाव रहित जीवन जीने के गुर सिखाए। एमपीएन कालेज, एसटी पालीटेक्निक, राजकीय कालेज में डॉ. सविता ने संबोधन किया। डॉ. एस पी सिंगला सेंट्रल अंबाला में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित किया। आई एम ए की ओर से प्रदेश प्रधान डा. जयसवाल ने डा. लक्ष्मी व डा. शिल्पा को स्मृतिचिन्ह प्रदान किया।

भटिंडा। पश्चिम कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ब्र. कु.डॉ. किरण ने बताया कि जीवन को निरोगी एवं स्वस्थ बनाने का सबसे सरल उपाय है नियमित व्यायाम के साथ-साथ पौष्टिक आहार लेना। मन को सशक्त करने के लिए हमें नियमित रूप से राजयोग मेंडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। जब हमारा मन स्वस्थ होगा तब स्वतः ही तन भी स्वस्थ होगा।

सहायक सिविल सर्जन इंदू भूषण अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। केंद्रीय जेल सहित महानगर के नौ स्थानों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें डॉ. लक्ष्मी, डॉ. जयश्री व ओ.पी. मल्होत्रा ने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी।

सिरसा। नगर तथा आस-पास के गांवों में तथा स्कूल-कालेजों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान दल के डॉक्टर्स की टीम ने जेल में जाकर सभी कैदियों को व्यसनों से मुक्त रहकर एक स्वस्थ जीवन जीने की स्पष्टी जानकारी दी तथा अनेकों कैदियों ने नशामुक्त जीवन जीने का संकल्प भी किया। शांति सरोबर में डॉक्टर्स के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी तथा आयुर्वेद से संबोधित सभी विकिस्कों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जे.जी.डी. विद्यापीठ के डायरेक्टर डा.जान, ब्र.कु.रीटा, ब्र.कु.लक्ष्मी, डॉ.किरन।

मुंडियां। मेडिटेशन नर्सिंग स्कूल के डायरेक्टर डा.जान, ब्र.कु.रीटा, ब्र.कु.लक्ष्मी, डॉ.किरन। विद्यापीठ के इच्छाथी कि ऐसे विश्व विद्यालय का निर्माण हो जहां श्रेष्ठ मानव तैयार किये जायें। ब्रह्माकुमारीज एक ऐसा संस्थान है जहां हाथ कार्य बड़े सुगम ढंग से चल रहा है। हम जैसे-जैसे मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे मेडिसन भी स्वतः ही कम होने लगती है। विभिन्न राज्यों से इस अभियान के साथ चल रहे डॉक्टर्स ने एफ.एम.रेडियो के द्वारा भी सिरसा वासियों को संबोधित किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की।

हिसार, पानीपत, दिल्ली, गुडगांव, रेवाड़ी, अलवर जयपुर, अजमेर से होते हुए यात्रा जोधपुर पहुंची।

जोधपुर। ब्रह्माकुमारी संस्था, मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय बासनी के संयुक्त तत्वाधान में एसोसिएशन सभागार में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।

अलवर। नर्सिंग कालेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्राएं प्रशिक्षण लेते हुए।



पालनपुर। नूतन भारती संस्थान के छात्र स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां ध्यानपूर्वक सुनते हुए।



अलवर। नर्सिंग कालेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्राएं प्रशिक्षण लेते हुए।

ओम शान्ति मीडिया



पटियाला। वेयर अंजोत पाल सिंह कोहली अभियान दल के सदस्यों के साथ



वरागा-सूरत। डा.मीना, श्रीमती के.वी.मंगूकिया दिव्य जीवन साधना हॉस्टल के बच्चों को अभ्यास कराते हुए।



सुरत। अभियान दल के डाक्टर्स स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान चेकअप करते हुए।



नडियां। मेडिटेशन नर्सिंग स्कूल के डायरेक्टर डा.जान, ब्र.कु.रीटा, ब्र.कु.लक्ष्मी, डॉ.किरन।



सोनीपत। डा.ब्र.कु.वासंती ग्रामवासियों का स्वस्थ परीक्षण करते हुए।



जालंधर। सेंट्रल जेल में कैदियों को व्यसनमुक्ति की प्रेरणा देते हुए डा.रामप्रकाश।

ओम शान्ति मीडिया



सिकन्दराबाद। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल दवे को अभियान से जुड़ी जानकारी देते हुए डा.अशोक मेहता व ब्र.कु.दुर्गेश।



सम्बलपुर। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कलेक्टर प्रदीप पटनायक, रुमानाथ मिश्रा, ब्र.कु.पार्वती तथा अन्य।



सिकन्दराबाद। गांधी मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा.प्रदीप देशपाण्डे के साथ अभियान के सदस्य कार्यक्रम के पश्चात समूह चिव्व में।



गुलबर्ग। डा.शरन प्रकाश विधायक, डा.रतन राठौर, ब्र.कु.दुर्गेश, डा.भोसले, डा.गोपबन्धु, ब्र.कु.प्रेम भाई तथा अन्य दीप प्रज्ञवलित करते हुए।



धमतरी। प्रधार टीवी चैनल को इन्टरव्यू देते हुए डा.भुसाले तथा डा.गोपबन्धु।



संबलपुर। अभियान के सदस्यों से इन्टरव्यू लेते हुए मीडिया कर्मी।

दिसम्बर-I, 2009

भुवनेश्वर से मुख्यौँ...

भुवनेश्वर। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री प्रसन्न आचार्य ने ब्रह्माकुमारीज मेडिकल विंग द्वारा 'हमारा भारत, स्वस्थ भारत' अभियान के अंतर्गत 'भुवनेश्वर से मुख्यौँ' तक की यात्रा का शुभारंभ करते हुए कहा कि ऐसे विशाल एवं सूच्यवस्थित कार्यक्रम का आयोजन ही संरक्षा के महान कार्य की प्रदर्शित करता है। माताओं एवं बहनों द्वारा संचालित यह संस्था समस्त विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे कार्यक्रम में हम्सा लेकर मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण बीमारियों का प्रसार बढ़ रहा है। लोग बीमारियों से कम धर्मप्रेरणा है लेकिन उससे होने वाली मानसिक पीड़ा अधिक परेशान करने वाली होती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बीमारियों के होने के कारण व ब्रह्माकुमारीज के प्रति सजगता लाने में 'मेरा भारत स्वस्थ भारत' अभियान अवश्य ही सफल होगा। सरकार समाज में जो परिवर्तन नहीं लाए रही है उसे ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा सहजता से लाया जा सकता है।

डा.पिरीश पटेल ने स्वस्थ रहने के लिए सात सिद्धांत बताते हुए कहा कि पहला सिद्धांत है ज्ञान एक शक्ति है अतः स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं वह कीजिए। दूसरा, स्वस्थ रहने का सबसे सरल, सस्ता व सर्वोत्तम उपाय है नियमित व्यायाम। व्यायाम करने में एक रूपया भी खर्च नहीं होता। जब आप व्यायाम करते हो तो शरीर में पच्चीस परिवर्तन आते हैं जो स्वास्थ्य में बुद्धि करते हैं। व्यायाम में महत्वपूर्ण है नियमितता। अगर एक महीने व्यायाम करके बंद कर देंगे तो वजन बढ़ा जायेगा। तीसरा, संतुलित आहार ही औषधि है। अंकुरित व प्राकृतिक आहार अधिक मात्रा में लें तो वह शरीर को अधिक स्वस्थ रखेंगे। चौथा, मानव का पहला दुश्मन है - मानसिक तनाव। पांचवा, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आपके एक विचार में भी अद्भुत शक्ति है। छठवां, आवश्यकता अनुसार कम से कम दवाई लो। सातवां, व्यसन-मुक्ति के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना करना ही व्यथा है। सिर्परेट, तन्माकू या शराब का सेवन करते हुए सुस्वास्थ्य पाया जानी जा सकता। ये व्यसन शरीर के लिए धातक हैं।

मेडिकल विंग के अध्यक्ष डा.अशोक मेहता ने अभियान के उद्देश्यों को तथा सेवा योजना को विस्तार से सर्व को अवगत कराया। ब्र.कु.लीना बहन ने कुशल मंच संचालन किया।

रायपुर। वर्तमान भागदौड़ की जिंदगी में उचित आहार, विचार, व्यवहार, निद्रा और व्यायाम का जीवन में अभाव सा हो जाया गया है। परिणामस्वरूप सही जीवनशैली न होने के कारण लोग अनेकानेक घातक बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं।

उक्त विचार इंदौर के जाने-बाने हेतु काउंसलर डा.दिलीप नलगे ने अभियान के अंतर्गत शान्ति सरोबर में आयोजित स्वास



त्रिवेन्द्रम। केरल के राज्यपाल महामहिम आर.एस.गवई को अभियान की जानकारी देते हुए बृ.कु.मठिल्डा। साथ हैं डॉ.बनारसी लाल, डॉ.कु.मिन्नी, डॉ.कु.निरंजना व डॉ.सचिन।



गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री दिवार कमत अभियान का शुभारंभ करते हुए। साथ हैं बृ.कु.ओभा, बृ.कु.उमेश एवं बृ.कु.वनिता।



धारावाढ। यात्रा के पहुंचने पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डिप्यूटी कमिशनर दर्पण जैन, डॉ.बृ.कु.बसवाराज राजकृष्ण, चौफ इंजीनियर महेश एम.हीरेमथ।



चित्रदुर्ग। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान बृ.कु.गीता व बृ.कु.वीना।



कावीपुरम। विधायक शक्तिकमलमल यात्रा को हरी झड़ी दिखाकर रखना करते हुए।



कोयंबटूर। बृ.कु.अतुल, लक्ष्मीनारायण कालेज के छात्रों व शिक्षकगण को सम्बोधित करते हुए।

त्रिवेन्द्रम से मुठ्ठई...

त्रिवेन्द्रम में भव्य उद्घाटन के साथ आरंभ हुई यह यात्रा कोल्लम, अलेप्पी, कोच्चि, त्रिसूर से होते हुए कोयम्बटूर पहुंची।

कोयम्बटूर। 'मेरा भारत, स्वस्थ भारत अभियान' के कोयम्बटूर पहुंचने पर पिचनौर इंटरमेडिएट स्कूल स्कूल की प्रधानाचार्या मिसेज तिरुमंगल, पंचायत के अध्यक्ष भिलस्वामी और स्कूल के बच्चों के माता-पिता ने रेली में शामिल डॉक्टरों का स्वागत किया।

डॉ.इंदिरा ने अपने सम्बोधन में कहा कि हमें अच्छी हेतु के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, उचित आहार और नियमित व्यायाम करने की आदत डालना बहुत ही जरूरी है।

लक्ष्मी-नारायण विशालकाशी आर्ट्स एण्ड साइंस कालेज में बोलते हुए पूजा बहन और अतुल भाई ने रेली का उद्देश्य बताते हुए माइंड प्रबंधन के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया।

नेहरू महाविद्यालय आर्ट्स एण्ड साइंस कालेज में डॉ.इंदिरा और पूजा बहन ने विद्यार्थियों और कालेज के स्टॉफ को संबोधित किया।

बृ.कु.राजेश्वरी ने सभी को मेडिशेन का अभ्यास कराया। नारायण गुरु कालेज और भी.एल.बी. जानकीमल आर्ट्स एण्ड साइंस कालेज में डॉ.सचिन ने 'स्वस्थ जीवनशैली और मेडिशेन का महत्व' विषय पर लोगों को बताया। इस कार्यक्रम में लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया।

डॉ. उमा रानी के नेतृत्व में दूसरे गुप्त ने नरसिंहपुरम में नारायण गुरु कालेज, कोवी कालिंगल इंजिनियरिंग कालेज, नरसिंहपुरम में उपस्थिति विद्यार्थियों को मेडिशेन का अभ्यास कराया। और मिथिलन ने सकारात्मक सोच से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताया।

रामकृष्ण अस्पताल के नर्सिंग सुपरिङेन्ट मिसेज विजयालक्ष्मी ने सभी नर्सें को माठट आबू में होने वाले काफ़ेस में शामिल होने के लिए निर्मंत्रण दिया। कौ.जी.अस्पताल में दादी की यादों को स्लाइड शो के माध्यम से दिखाया गया।

कोयम्बटूर से निकलकर यात्रा मदुराई, तिरुचिरापल्ली, पांडिचेरी, चेन्नई, कांचीपुरम, विल्लोर, कृष्णगढ़ी, से होते हुए बैंगलोर पहुंची।

बैंगलोर में रैली का स्वागत टाउन हाल सर्किल में रखा गया जहां हजार से अधिक लोग उपस्थित थे। बैंगलोर मेडिकल कालेज में स्टूडेन्ट्स को तानाव प्रबंधन के उपर समझाया गया। विवेश्वरैया कालेज दो सौ पीयूसी छात्रों को सकारात्मक चिन्तन विषय पर समझाया गया। वरीविलास हास्पिटल में नर्सें के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। आनंदपुरा में गरीब विड्डे हुए लोगों के इलाके में जाकर उन्हें व्यसन मुक्ति के बारे में समझाया गया। कोकोला कम्पनी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीए कालेज में भी लेक्चर्स हुए। एसएनएल कालेज में स्व-सशक्तिकरण विषय पर प्रकाश डाला गया।

बैंगलोर से निकलकर यात्रा चित्रदुर्ग, दावनगिरी, दुब्ली, धारवाड, पण्णी, बेलगाम, कोल्हापुर, सांगती, कराड, सतारा, महाबलेश्वर, अलीबाग, पनवेल, अम्बरनाथ से होते हुए मुठ्ठई पहुंची।

इस यात्रा से लाभान्वित होने वाले कुल लोगों की संख्या है -6528, कुल कार्यक्रम -369।



चेन्नई। डॉ.अशोक मेहता स्टेनली हास्पिटल की नर्सें को सम्बोधित करते हुए।



सतारा। सैनिक के छात्रों को एक्सरसाइज कराते हुए अभियान दल के सदस्य।



दावनगिरी। डॉ.अल्पा स्कूल की छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए।



अलेप्पी। जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे ध्यानपूर्वक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाएं सुनते हुए।



कराड। आइएमए के डाक्टर्स को सम्बोधित करते हुए अभियान के डाक्टर्स।



त्रिची। स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान का दृश्य।



शांतिवन। सूचना प्रौद्योगिकी मंडी डॉ.अनिल को अभियान की जानकारी देते हुए डॉ.बनारस।



लुधियाना। विधायक दर्शनसिंह के साथ अभियान दल के सदस्य।



वलसाड। अभियान के अंतर्गत आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में मंचासीन हैं स्वामीनारायण संस्थान के संत हरिप्रसाद जी, डॉ.निरंजना तथा अन्य।



पटियाला। सुखदेव सिंह जी के साथ अभियान दल के सदस्य।



माउण्टआबू। नगर पालिका अध्यक्ष जालमगिरी के साथ अभियान दल के सदस्य।



तलोद-अहमदाबाद। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान का दृश्य।

देवदालून से मुठ्ठई...

इस शिविर में बासनी गांव के 650 से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें आयरन एवं विटामिन ए वितरित किया गया। तत्पश्चात उद्यमियों एवं कार्यक्रमों के लिए व्यसन मुक्ति, स्वस्थ जीवन शैली व तानाव मुक्ति पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉ.चौहान, डॉ.पौजाजीराज चौधरी ने सहयोग दिया। बृ.कु.चंद्रेश्वर ने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आये बच्चों को मेमोरी पॉपर एवं एकाग्रता शक्ति बढ़ाने हेतु प्रैक्टिकल टिप्प एवं कुछ अभ्यास सिखाए। अपर जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत आयोजित विशाल स्वास्थ्य शिविर की सराहना की।

सिरोही। लालंस क्लब, जे.वाटोमल ग्लोबल हॉस्पिटल एवं स्थानीय ब्रह्माकुमारीज सेवाकेन्द्र के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क नेत्र जांच व चिकित्सा एवं व्यसन मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। 500 बच्चों के नेत्र जांच कर दर्वाईं वितरण की गई। सिरोही सेवाकेन्द्र पर 220 मरीजों के नेत्र जांचकर 25 लोगों को मोतियांबंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर निःशुल्क ऑपरेशन के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल माडण्ट आबू भिजवाया एवं शेष को निःशुल्क दर्वाईं वितरण कर निदान किया गया। अभियान दल के सदस्यों द्वारा आदर्श चरित्र जीवन शैली यापन करने के बारे में प्रेरित किया गया। शाम को होटल कल्पतरू में मेडिकल विंग डॉक्टरों द्वारा व्यसन मुक्ति बीमारियों के लक्षण और बचाव व निदान की जानकारी दी। अंत में लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा रेली के मेडिकल डॉक्टरों का गणनायन नागरिकों की उपस्थिति में गुलदस्ते व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

माउण्ट आबू। नीलकंठ महादेव मंदिर में आयोजित चिकित्सा शिविर को कार्यक्रम को नगर पालिका अध्यक्ष जालमगिरी ने सम्बोधित किया।

ग्लोबल अस्पताल के निदेशक डॉ.प्रताप मित्र ने अस्पताल की ओर से चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि हम दर्वाई के साथ-साथ मेडिशेन भी करते हैं तो इससे बीमारी जल्द ही ठीक हो जाती है क्योंकि इससे मन में पौर्जीत्व ऊर्जा का उत्तराधार होता है जो कि हमें स्वस्थ व्यक्तित्व प्रदान करता है।

नीलकंठ महादेव मंदिर के महंत जगन्नाथगिरी ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौर्जीत्व आहार के अंतर्गत आयरन कैलिश्यम, विटामिन, प्र



सारनाथ (वाराणसी) | प्रो.डॉ.श्याम रावत संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए। मंच पर हैं दैनिक जागरण के सम्पादक राधवेन्द्र चड्डा, ब्र.कु.सुरेन्द्र तथा अन्य।



रेंपटोक। विधानसभा के स्पीकर श्याल्टसेन को ईश्वरीय सौगत भेंट करते हुए ब्र.कु.शेफाली। साथ हैं डॉ.अप्पा व डॉ.प्रीति।



मिर्जापुर। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आईएमए के अध्यक्ष सी.पी.सिंह, डिप्टी सीएमओ डॉ.उपरेती, डॉ.प्रीति, डॉ.अनिल तथा अन्य अभियान दल के सदस्य।



मुजफ्फरपुर। मेडिकल कालेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कालेज के डीन डॉ.सिन्हा, डॉ.अशोक मेहता तथा अन्य।



समस्तीपुर। आईएमए के अध्यक्ष डॉ.डी.के.मिश्रा, सचिव डॉ.डी.एस.सिंह, ब्र.कु.प्रीति, ब्र.कु.अनिल, डॉ.रीनर बार्थ तथा अन्य गेट टू गेट कार्यक्रम के दौरान।



समस्तीपुर। आईएमए के अध्यक्ष डॉ.डी.के.मिश्रा, सचिव डॉ.डी.एस.सिंह, ब्र.कु.प्रीति, ब्र.कु.अनिल, डॉ.रीनर बार्थ तथा अन्य गेट टू गेट कार्यक्रम के दौरान।

'गुवाहाटी से मुम्बई' यात्रा से समाज का हर वर्ग हुआ लाभान्वित

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने ब्रह्माकुमारी संस्था के 'मेरा भारत स्वास्थ्य भारत' अभियान के उद्घाटन अवसर पर उद्बोधन में कहा कि सुक्षित पेयजल तथा स्वास्थ्य चेतना अच्छी सेहत की कुंडी है। मधुमेह, रक्तचाप आदि बीमारियों का मुख्य कारण जीवनशैली में बदलाव है। गांव में बसने वाले लोगों को सादे जीवन के कारण ऐसी बीमारियां शहरियों की अपेक्षा कम जकड़ी हैं। इसके बावजूद ब्रह्माकुमारीज जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सरकार का कर्तव्य है कि सभी को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति संचेत करें। गोगोई जी ने विश्वास व्यक्त किया कि ध्येयनिष्ठ बहनें व भाई इस लक्ष्य की प्राप्ति में अवश्य सफल होंगे।

बीएसईएसएमजी अस्पताल मुम्बई के सुविधायात कैंसर सर्जन डॉ.अशोक आर.मेहता ने अपने मुख्य वक्तव्य में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार, जीवन शैली सुधार, पौष्टिक भोजन व व्यायाम, नशा उन्मुलन तथा स्कूली विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति संजगत बढ़ाना है। राजयोगाभ्यास व सकारात्मक जीवन प्रणाली द्वारा मधुमेह, कैंसर, एड्स व हृदयरोग जैसी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है।

ट्रिभुवन समाचारपत्र समूह के अध्यक्ष टी.जी.बरुआ के अलावा माउण्टआबू से पधारे मेडिकल विंग के सचिव डॉ.बनारसी लाल शाह, डॉ.प्रताप मिश्रा, डॉ.निरंजना शाह ने भी अभियान पर प्रकाश डाला।

स्वागत सम्बोधन उत्तरपूर्व व बंगलादेश उपजोन प्रभारी ब्र.कु.शीला ने दिया। न्यूरो सर्जन डॉ.भावेश काकोटी ने आभार जताया। स्वागत नृत्य सुरोज प्रिया ने प्रस्तुत किया। अनेक स्थानों पर निःशुल्क चैकअप शिविर आयोजित किए गये। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, विश्वविद्यालय, कॉटन कालेज व कैंसर इन्स्टीट्यूट में विशेषज्ञों के व्याख्यान हुए।

सारनाथ (वाराणसी)। मानव जीवन का वास्तविक व सम्पूर्ण आनंद स्वस्थ जीवन जीने में निहित है। सभी समस्याओं व प्रदूषण का मूल कारण मानव के अन्तर्मन में बढ़ता प्रदूषण है।

उत्तर विचार ब्रह्माकुमारीज सेवाकेन्द्र में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रो.डॉ.श्याम जी रावत ने कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भौतिक समृद्धि के बावजूद स्पर्धात्मक वातावरण, मानसिक तथा असंयमित दिनचर्या, नकारात्मक जीवन शैली आदि से मानव जीवन दिन प्रतिदिन दुःखमय होता जा रहा है। जब तक हम मानसिक प्रदूषण को दूर नहीं करेंगे तब तक स्वस्थ



गुवाहाटी। 'गुवाहाटी से मुम्बई' यात्रा का उद्घाटन करते हुए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, ट्रिभुवन समाचारपत्र समूह के अध्यक्ष टी.जी.बरुआ, डॉ.अशोक मेहता, ब्र.कु.शीला बहन, डॉ.प्रताप मिश्रा, डॉ.बनारसी लाल शाह, डॉ.निरंजना तथा अन्य।

समाज की स्थापना करना संभव नहीं है।

दैनिक जागरण के संपादक राधवेन्द्र चड्डा ने जीवन में सकारात्मक सोच की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने नकारात्मक सोच व व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाकर इन प्रयोगों द्वारा तन-मन को ओजार्पण रखें। उन्होंने मीडिया में भी ऐसे सकारात्मक व आध्यात्मिक बातों पर महत्व देने की आवश्यकता है।

मुख्य अधिकारी प्रदेश पूर्व प्रमुख सचिव जे.एस.यादव ने कहा कि मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य ही संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी है। अपने आचरण व व्यवहार में सदगुणों को लाने से पूर्ण स्वास्थ्य सम्भव है।

संस्था की क्षेत्रीय निदेशिका ब्र.कु.सुरेन्द्र दीदी ने कहा कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान अध्यात्मिकता में निहित है। आध्यात्मिकता के माध्यम से ही हमरे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की कला व मनोबल की वृद्धि होती है।

मुजफ्फरपुर। ब्रह्माकुमारीज के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मेडिकल विंग द्वारा चलाये जा रहे अभियान के नगर में पहुंचने पर चैपैमैन स्कूल तथा एंडीडीएम कालेज में कार्यक्रम आयोजित किए गये। अभियान यात्रियों में शिमला के स्नीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ.भंडारी, मुम्बई से डॉ.अप्पा, चंडीगढ़ से शंकुलाला बहन, वडोदरा से धर्ती बहन, माउंट आबू हरीस भाई शामिल थे।

डॉ. भंडारी ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए सात्त्विक आहार लिया जाना चाहिए व्योगी भोजन के सूक्ष्म अंश से मन के विचार बनते हैं। तनावप्रस्त लोगों से विचार संकीर्ण हो जाते हैं एवं आत्मविश्वास कम होता है।

समस्तीपुर। ब्रह्माकुमारीज सेवाकेन्द्र में आयोजित कार्यक्रम का

विधिवत उद्घाटन आरक्षी अधीक्षक अजिताभ कुमार ने किया। सभा को संबोधित करते हुए पुलिस कपातान ने कहा कि ऐसे अभियान की वर्तमान समय में मांग है व्योगी हर व्यक्ति आज किसी ने किसी बीमारी का शिकायत दी है। इस अभियान की सफलता के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी।

डॉ. डी.के.भंडारी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपूर्ण स्वास्थ्य उपरे माना है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य समाविष्ट हो। उन्होंने कहा कि इस संस्था की मुख्य प्रशासिका द्वारा जीवनी जी ने कहा कि आध्यात्मिकता से विमुख होना ही 90 प्रतिशत बीमारियों का कारण है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य विकसित नहीं होगा तब तक बड़ी-बड़ी डिग्रियां, दवाईयां या किसी प्रकार का इलाज हमें स्थायी रूप से स्वस्थ नहीं बना सकता। वडोदरा कॉलेज के एसोसिएट प्रो. डॉ. अनिल ने बताया कि दुनिया में सभी बीमारियों का कारण तनाव है और तनाव का कारण मैं और मेरा इनकाना कारकात्मक प्रयोग है।

आस्ट्रेलिया से पधारे रेनर बर्थ ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि भारत में शांति और खुशी की खोज में आया तो उनका सम्पर्क ब्रह्माकुमारी से हुआ और यहां का मेडिटेशन सीखने से मेरी खोज पूरी हुई और मैं हिप्पी से होपी बन गया।

यह यात्रा पटना, हाजीपुर, छपरा, सिवान से होते हुए बलिया पहुंची।

बलिया। कार्यक्रम के लिए बलिया के व्यापार व्यवसायों का स्वागत करते हुए कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्था स्वास्थ्य जागरूकता के लिए जो अभियान चला रही है वह निश्चित रूप से सफल होगा।

स्थानीय सेवाकेन्द्र संचालिका ब्र.कु.उमा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

आराणसी एवं एसेमीसीएच में भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुंबई से पधारे अतर्राष्ट्रीय सर्जन डा. अशोक मेहता, वडोदरा से डा. अनिल व डा. प्रीति, भीलवाडा से डा. रीतू, चंडीगढ़ से सत्यवीर ने भाग लिया। आस्ट्रेलिया से पधारे ब्रदर रेनर बर्थ मनोविज्ञानिक तथा उपरिथित थे।

यात्रा के दौरान अनेक स्कूलों, कालेजों, जेतों, पब्लिक कार्यक्रमों, अस्पतालों, मेडिकल कालेजों, सीनियर चिकित्सालयों के लिए आयोजित कार्यक्रमों, रोटरी व लायंस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, व्यसन मुक्ति शिविरों से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या थी - 4375

रिंग। नर्सिंग कालेज की छात्राओं अभियान दल के डाक्टरों से स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारियों से लाभान्वित होते हुए।



पटना। पब्लिक कार्यक्रम में वक्ताओं के विचार सुनते हुए नगर के प्रबुद्ध जन।